



Series ABDC2/4

Set No. 3



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

65/4/3

अनुक्रमांक

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 7 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 14 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 7 printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 14 questions.
- Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



गणित

MATHEMATICS



निर्धारित समय : 2 घण्टे

Time allowed : 2 hours

अधिकतम अंक : 40

Maximum Marks : 40



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- इस प्रश्न-पत्र के **तीन खण्ड हैं – खण्ड क, ख तथा ग ।**
- प्रत्येक खण्ड **अनिवार्य** है ।
- खण्ड क में 6 लघु उत्तर I प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं ।**
- खण्ड ख में 4 लघु उत्तर II प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं ।**
- खण्ड ग में 4 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं ।**
- कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है ।
- प्रश्न सं. 14 एक प्रकरण-अध्ययन आधारित प्रश्न है जिसमें दो भाग हैं । प्रत्येक भाग के 2 अंक हैं ।

खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं ।

- (क) यदि $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2 = 400$ और $|\vec{b}| = 5$ है, तो $|\vec{a}|$ का मान ज्ञात कीजिए । 2

अथवा

- (ख) परिमाण $5\sqrt{3}$ वाले वे सभी संभव सदिश ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक-अक्षों के साथ एकसमान कोण बनाते हैं । 2

- मान ज्ञात कीजिए : 2

$$\int_0^1 x^2 e^x dx$$

- तीन दोस्तों A, B तथा C ने अपनी फोटो खिंचवाई । B के बीचों-बीच खड़े होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यदि A बाएँ कोने पर खड़ा है । 2

- एक सिक्का दो बार उछाला जाता है । निम्नलिखित तालिका में पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन दिखाया गया है :

X	0	1	2
P(X)	K	6K	9K

- (क) K का मान ज्ञात कीजिए ।

- (ख) क्या यह सिक्का अभिनत या अनभिनत है ? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए । 2



General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **three** sections – **Section A, B and C**.
- (ii) Each section is **compulsory**.
- (iii) **Section A** has **6** short answer type I questions of **2** marks each.
- (iv) **Section B** has **4** short answer type II questions of **3** marks each.
- (v) **Section C** has **4** long answer type questions of **4** marks each.
- (vi) There is an internal choice in some questions.
- (vii) Question no. **14** is a case-study based question with 2 sub-parts of **2** marks each.

SECTION A

Questions number **1** to **6** carry **2** marks each.

1. (a) If $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2 = 400$ and $|\vec{b}| = 5$, then find the value of $|\vec{a}|$. 2

OR

- (b) Find all the possible vectors of magnitude $5\sqrt{3}$ which are equally inclined to the coordinate axes. 2

2. Evaluate : 2

$$\int_0^1 x^2 e^x dx$$

3. Three friends A, B and C got their photograph clicked. Find the probability that B is standing at the central position, given that A is standing at the left corner. 2

4. A coin is tossed twice. The following table shows the probability distribution of number of tails :

X	0	1	2
P(X)	K	6K	9K

- (a) Find the value of K.
- (b) Is the coin tossed biased or unbiased ? Justify your answer. 2



5. एक समतल पर बिन्दु $(-2, -1, -3)$ से डाले गए लम्ब के पाद के निर्देशांक $(1, -3, 3)$ हैं। समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2
6. अवकल समीकरण $\sec^2 x \cdot \tan y \, dx + \sec^2 y \cdot \tan x \, dy = 0$ का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 2

खण्ड ख

प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं।

7. यदि रेखा $y = mx$ तथा वक्र $x^2 = y$ के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{32}{3}$ वर्ग इकाई है, तो समाकलन के प्रयोग से m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। 3
8. यदि $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ और $\vec{c} = \hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ हैं तथा सदिश $\vec{c} + \lambda \vec{b}$ का सदिश \vec{a} पर प्रक्षेप $2\sqrt{6}$ है, तो λ का मान ज्ञात कीजिए। 3
9. (क) यदि एक रेखा x -अक्ष तथा z -अक्ष की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः 60° तथा 45° के कोण बनाती है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए जो यह रेखा y -अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाती है। अतः रेखा की दिक्-कोसाइन लिखिए। 3
- अथवा
- (ख) जाँच कीजिए कि रेखाएँ $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ और $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$ विषमतलीय हैं या नहीं। 3
10. (क) ज्ञात कीजिए : 3

$$\int \frac{1}{e^x + 1} dx$$

अथवा

- (ख) मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_1^4 \{ |x| + |3-x| \} dx$$



5. The foot of a perpendicular drawn from the point $(-2, -1, -3)$ on a plane is $(1, -3, 3)$. Find the equation of the plane. 2

6. Find the general solution of the differential equation
 $\sec^2 x \cdot \tan y \, dx + \sec^2 y \cdot \tan x \, dy = 0$. 2

SECTION B

Questions number 7 to 10 carry 3 marks each.

7. If the area of the region bounded by the line $y = mx$ and the curve $x^2 = y$ is $\frac{32}{3}$ sq. units, then find the positive value of m , using integration. 3

8. If $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ and the projection of vector $\vec{c} + \lambda \vec{b}$ on vector \vec{a} is $2\sqrt{6}$, then find the value of λ . 3

9. (a) If a line makes 60° and 45° angles with the positive directions of x -axis and z -axis respectively, then find the angle that it makes with the positive direction of y -axis. Hence, write the direction cosines of the line. 3

OR

(b) Check whether the lines $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ and $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$ are skew or not. 3

10. (a) Find : 3

$$\int \frac{1}{e^x + 1} dx$$

OR

(b) Evaluate : 3

$$\int_1^4 \{ |x| + |3-x| \} dx$$



खण्ड ग

प्रश्न संख्या 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं।

11. मान ज्ञात कीजिए :

4

$$\int_{-3}^3 \frac{x^4}{1+e^x} dx$$

12. समतलों $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 3\hat{j}) = 6$ और $\vec{r} \cdot (3\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}) = 0$ की प्रतिच्छेदन रेखा से गुज़रने वाले और मूल-बिन्दु से 1 इकाई की दूरी वाले समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए।

4

13. (क) अवकल समीकरण $x \frac{dy}{dx} + y + \frac{1}{1+x^2} = 0$ का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, दिया गया है कि $y(1) = 0$.

4


अथवा

(ख) अवकल समीकरण $x(y^3 + x^3) dy = (2y^4 + 5x^3y) dx$ का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।

4

प्रकरण-अध्ययन आधारित प्रश्न

14. तीरंदाज़ी के खेल में, तीरंदाज़ी लक्ष्य की प्रत्येक रिंग के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय रिंग के 10 अंक और बाकी सभी रिंगों को 9 से 1 अंक, बाहर की ओर अनुक्रमिक क्रम में, दिए गए हैं। तीरंदाज़ A के 10 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता 0.8 और तीरंदाज़ B के 10 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता 0.9 है।



उपरोक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

यदि दोनों तीरंदाज़, तीरंदाज़ी लक्ष्य को निशाना बनाते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब

(क) केवल एक ही तीरंदाज़ 10 अंक प्राप्त करता है।

2

(ख) दोनों तीरंदाज़ 10 अंक प्राप्त करते हैं।

2



SECTION C

Questions number 11 to 14 carry 4 marks each.

11. Evaluate :

4

$$\int_{-3}^3 \frac{x^4}{1+e^x} dx$$

12. Find the equations of the planes passing through the line of intersection of the planes $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 3\hat{j}) = 6$ and $\vec{r} \cdot (3\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}) = 0$, which are at a distance of 1 unit from the origin.

4

13. (a) Find the particular solution of the differential equation $x \frac{dy}{dx} + y + \frac{1}{1+x^2} = 0$, given that $y(1) = 0$.

4

OR


(b) Find the general solution of the differential equation $x(y^3 + x^3) dy = (2y^4 + 5x^3y) dx$.

4

Case-Study Based Question

14. In a game of Archery, each ring of the Archery target is valued. The centremost ring is worth 10 points and rest of the rings are allotted points 9 to 1 in sequential order moving outwards.

Archer A is likely to earn 10 points with a probability of 0.8 and Archer B is likely to earn 10 points with a probability of 0.9.



Based on the above information, answer the following questions :

If both of them hit the Archery target, then find the probability that

(a) exactly one of them earns 10 points.

2

(b) both of them earn 10 points.

2